



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 अग्रहायण 1939 (श0)

(सं0 पटना 1176) पटना, सोमवार, 11 दिसम्बर 2017

गृह विभाग

अधिसूचना

28 नवम्बर 2017

सं० सै०क०नि०/०१/०९/२०११-१२२६—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक सपठित बिहार पूर्व सैन्य पदाधिकारी सेवा नियमावली, २०१६ के नियम ४ के उपनियम (६) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त नियमावली, २०१६ के नियम ४ के अधीन भर्ती हेतु चयन का मानदंड एवं प्रक्रिया अवधारित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :-

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।— (१) यह विनियमावली “बिहार सैनिक कल्याण निदेशक तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी चयन विनियमावली, २०१७” कही जा सकेगी :-

- (२) इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा।
- (३) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

२. बिहार पूर्व सैन्य पदाधिकारी सेवा नियमावली, २०१६ के नियम ४ (१) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा सैनिक कल्याण निदेशालय में निदेशक एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड एवं प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

- |     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| (क) | अन्तर्वीक्षा | — २५ अंक |
| (ख) | सेवा इतिहास  | — ७५ अंक |

सेवा इतिहास के लिए निर्धारित ७५ अंको का विभाजन निम्नवत होगा :-

- |       |                                      |          |
|-------|--------------------------------------|----------|
| (i)   | शौर्य पुरस्कार विजेता                | — १५ अंक |
| (ii)  | किसी युद्ध या ऑपरेशन में भाग लिया हो | — २० अंक |
| (iii) | सैन्य सेवा के दौरान उत्तीर्ण कोर्स   | — १० अंक |

(iv) सैन्य सेवा में उल्लेखनीय उत्कृष्ट सेवा जैसे :-

आर्मी कमाण्डर प्रशस्ति पत्र	— 10 अंक
कोर कमाण्डर प्रशस्ति पत्र	— 10 अंक
यूनिट कमाण्डर प्रशस्ति पत्र	— 10 अंक
कुल	— 75 अंक
कुल अंक (क + ख) —	100 अंक

(ग) उपरोक्त खंड (ख) (i) में निम्नांकित शौर्य पुरस्कार सम्मिलित होंगे :-

- (i) परमवीर चक्र
- (ii) अशोक चक्र
- (iii) सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल
- (iv) महावीर चक्र
- (v) कीर्ति चक्र
- (vi) उत्तम युद्ध सेवा मेडल
- (vii) वीर चक्र
- (viii) शौर्य चक्र
- (ix) युद्ध सेवा मेडल
- (x) सेना, नौसेना, वायु सेना मेडल
- (xi) मेन्शन-इन-डिस्पैचेज
- (xii) परम विशिष्ट सेवा मेडल
- (xiii) अति विशिष्ट सेवा मेडल
- (xiv) विशिष्ट सेवा मेडल

उक्त वर्णित 14 (चौदह) कोटि के शौर्य पुरस्कार विजेताओं के लिए 15 अंक विहित जाता है। एक बार या उससे अधिक बार किसी प्रकार का शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने की स्थिति में भी विजेताओं को मात्र 15 अंक ही प्राप्त होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट,  
सरकार के अपर सचिव।

28 नवम्बर 2017

सं० सै०क०नि०/०१/०९/२०११/१२२७, दिनांक २८ नवम्बर २०१७/ अधिसूचना सं०-१२२६ दिनांक २८ नवम्बर २०१७ का संलग्न अंग्रेजी अनुवाद एतद्वारा बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड— (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट,  
सरकार के अपर सचिव।

### ***The 28<sup>th</sup> November 2017***

No. SKN/01/09/2011/1226—In exercise of the powers conferred under the proviso to Article 309 of the Constitution of India read with sub rule (6) of Rule 4 of the Bihar Ex-defence Officer Service Rules, 2016, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Regulations to determine the criterion and procedure of selection for the recruitment under Rule 4 of the said Rules, 2016.

1. *Short title, extent and commencement.*— (1) These Regulations shall be called “The Bihar Selection Procedure of Soldiers Welfare Director and District Soldier Welfare Officers Regulation 2017”.

- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force at once.

2. The following eligibility criterion and procedure shall be followed by the Selection Committee constituted under rule 4 (1) of The Bihar Ex-Defence Officers Service Rules, 2016, for selection of Director in Sainik Kalyan Nidashalaya and District Soldier Welfare Officers in the District Soldier Welfare offices:-

- |     |                 |   |          |
|-----|-----------------|---|----------|
| (a) | Interview       | - | 25 marks |
| (b) | Service History | - | 75 marks |

The 75 marks prescribed for service history shall be divided as under:-

- |       |   |   |                 |
|-------|---|---|-----------------|
| (i)   | Gallantry Award Winners                 | - | 15 Marks        |
| (ii)  | Taken part in War or Operation          | - | 20 Marks        |
| (iii) | Course passed in Defence Service        | - | 10 Marks        |
| (iv)  | Exemplary Service in Defence Service :- |   |                 |
|       | Army Commander appreciation letter      | - | 10 Marks        |
|       | Corps Commander appreciation letter     | - | 10 Marks        |
|       | Unit Commander appreciation letter      | - | 10 Marks        |
|       | <b>Total</b>                            | - | <b>75 Marks</b> |

**Total marks (a +b) – 100 Marks**

(c) The following Gallantry Award shall be included in above Sub-rule (b) (i) :-

- (i) Paramvir Chakra
- (ii) Ashok Chakra
- (iii) Sarvottam Yudh Seva Medal
- (iv) Mahavir Chakra
- (v) Kirti Chakra
- (vi) Uttam Yudh Seva Medal
- (vii) Vir Chakra
- (viii) Shaurya Chakra
- (ix) Yudh Seva Medal
- (x) Sena, Nausena, Vayu Sena Medal
- (xi) Mention-in-Despatches
- (xii) Param Vishishat Seva Medal
- (xiii) Ati Vishishat Seva Medal
- (xiv) Vishishat Seva Medal

Fifteen marks are prescribed for Gallantry Award Winners of above 14 (Fourteen) categories. In case of receipt of one or more than one gallantary award, the awardee shall receive only 15 marks.

By the order of the Governor of Bihar,  
(Sd)-Illigible,  
Addl Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण) 1176-571+200-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>